

①

e. f. 1007

④

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE CHHATTISGARH AT
BILASPUR

W.P.NO. 2534 / 2004

Petitioner

:

Tarun Shukla S/o Shri Ram Kishore
Shukla, Occupation Head Master,
Aged about 45 years, R/o School
Campus, State High School,
Mahaveer Chowk, Rajnandgaon,
Distt : Rajnandgaon-(C.G.)

P. R. No. 2534/04
Shri. Ram Kishore Shukla
3-8-04

Versus

Respondents

:

1. State of Chhattisgarh
Through the Secretary
General Administration Department
(Education), D K S Bhawan, Raipur-
(C.G.)
2. The District Collector, Rajnandgaon,
Distt : Rajnandgaon-(C.G.)
3. The District Education Officer,
Distt. Education Office Rajnandgaon,
Dist : Rajnandgaon-(C.G.)



13/8/04
Clerk to A. S. Bilaspur

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226/227 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA FOR ISSUANCE OF WRIT OF
CERTIORARI ORDERS AND DIRECTION ETC.

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

N.P. No. 2534/2004

मामला क्रमांक

सन् 200

आदेश पत्रक (पूर्वानुबद्ध)

आदेश का दिनांक तथा आदेश क्रमांक	हस्ताक्षर सहित आदेश	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अंतिम आदेश
	<p><u>29-10-2004</u></p> <p>Shri Santosh Yadu, Advocate for the petitioner. Shri U.N.S. Deo, Govt. Advocate for the State. Heard.</p> <p>Learned counsel for the petitioner submits that the matter relates to transfer of the petitioner. He further submits that for the present the petitioner may be given an opportunity of filing the detailed representation before the competent authority of the respondents, which shall be considered on its own merits in accordance with law.</p> <p>Having considered and without expressing any opinion on the merits of the case, in the opinion of this Court, ends of justice will be served if a direction is given to the petitioner to make a detailed representation raising his grievances before the competent authority of the respondents along with a copy of the petition and this order, within 10 days, and on such representation being filed, the before the competent authority of the respondents shall decide the same on its own merits in accordance with law by a reasoned order as early as possible preferably</p>	

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
M.P.No. 2534/2004
भाषा कमीशन
२१ २००

आदेश पत्रक (प्रातिपक्ष)

आदेश का दिनांक पक्षों और कमीशन	इलाहाबाद और - 2 -	कार्यालयीन मामलों में हिंदी रिकॉर्डर के अतिरिक्त आदेश
-----------------------------------	----------------------	--

within six weeks from the date of receipt of the representation. It is made clear that if any grievance still remains, the petitioner may avail the remedy available under the law.

Counsel for the petitioner submits that the petitioner has not been relieved so far. He prays for stay till the representation is decided.

In view of the facts and circumstances of the case, it is directed that till the representation is decided if the petitioner is not relieved he be allowed to continue.

With the aforesaid observations, this petition stands disposed of.

Consequently M.W.P.No. 2246/2004 also stands disposed of.

SD/-
Fakhruddin
Judge